

# सराहनीय कार्य

जनपद बस्ती  
दिनांक-22.11.2022

**दिव्यांग के हत्या का सफल अनावरण, 24 घण्टे के अंदर हत्या का  
अभियुक्त गिरफ्तार-**

क्षेत्राधिकारी हरैया श्री शेषमणि उपाध्याय के कुशल पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष पैकोलिया मय पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 22.11.2022 को दिव्यांग सुनील की हत्या करने वाले अभियुक्त महेश तिवारी पुत्र शिव गोविन्द तिवारी निवासी सलहदीपुर थाना पैकोलिया जनपद बस्ती को सुबह समय 06:20 बजे सलहदीपुर उसके घर से गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त लोहे की रॉड तथा अभियुक्त का रक्त रंजीत कपड़ा बरामद किया गया।

## **घटना का संक्षिप्त विवरण:-**

दिनांक 21.11.2022 को थाना पैकोलिया को सुबह सूचना प्राप्त हुई कि सुनील कुमार पुत्र शिवदीन केवट ग्राम करनपुर सेंगर थाना पैकोलिया जनपद बस्ती जो कल 20.11.2022 को शाम करीब 6-7 बजे के बीच में सलहदीपुर के महंत तिवारी के लड़के के साथ घर से गया था। आज सुबह सात बजे परिजनों को जानकारी हुई कि जनता उच्च माध्यमिक विद्यालय इटवा के पास सुनील घायल अवस्था में पड़ा है, परिजनों द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घायल को घर लाया गया तथा एम्बुलेंस के माध्यम से CHC गौर ले गये, जहां डाक्टरों द्वारा सुनील को मृत घोषित कर दिया गया। तहरीर के आधार पर थाना पैकोलिया पर मु0अ0स0 249/2022 धारा 304 IPC पंजीकृत किया गया था।

## पूछताछ का विवरण:-

पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि हम दोनो एक साथ रहते थे, उस दिन हम दोनो साथ जा रहे थे दोनों में पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हो गया, जिससे मैंने सुनील को राड से मार दिया, और वह चोटिल हो गया जिसे देखकर मै भाग गया।

## गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. महेश तिवारी पुत्र शिव गोविन्द तिवारी निवासी सलहदीपुर थाना पैकोलिया जनपद बस्ती।

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष पैकोलिया दिलीप कुमार सिंह जनपद बस्ती ।
2. व0उ0नि0 मुनीन्द्र त्रिपाठी, उ0नि0 देवव्रत शर्मा थाना पैकोलिया जनपद बस्ती।
3. का0 सोनू यादव, का0 आशुतोष यादव थाना पैकोलिया जनपद बस्ती।

